

पैदल चालकों के लिए सुरक्षा टिप्स

अधिक जानने के लिए देखें: Cupertino.org/saferoutes या अपनी 'सेफ़ रूट्स 2 स्कूल' की सामुदायिक कोऑर्डिनेटर चेलसी से saferoutes@cupertino.org पर संपर्क करें.

सुरक्षित रहने के लिए टिप्स

1. गलत ढंग से सड़क पार करने से दुर्घटनाएँ होती हैं; समय निकाल कर चौराहों से ही सड़क पार करें
2. हमेशा दोनों तरफ़ देखें और क्रॉसवॉक पर क़दम रखने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि मोटर-चालकों ने आपको देख लिया है (मोटर-चालकों की आँखों में देखें, जरूरत हो तो हाथ हिलाएँ)
3. क्रॉसवॉक पर चलते समय यह मान कर **ना** चलें कि मार्ग पर पहला अधिकार आपका है; ड्राइवरों और साइकिल चालकों के बारे में सजग रहें
4. ध्यान दें कि क्रॉसवॉक पर कोई मोटर चालक रोलिंग राइट टर्न तो नहीं ले रहा
5. साइडवॉक के दाहिनी ओर चलें, सामने से आने वालों के लिए जगह छोड़ें
6. पैदल चलते समय टेक्स्ट ना करें
7. छोटे बच्चों, स्ट्रोलरों और वृद्धों को चलने के लिए पहले जगह दें. आवश्यक हो तो उन्हें जाने देने के लिए एक सेकेण्ड रुकें
8. मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाएँ; आपके लिए रुकने वाले ड्राइवर को धन्यवाद दें
9. चमकदार रिफ्लेक्टिव रंगों के कपड़े पहनें, विशेषकर रात में

यातायात के नियम

1. पैदल चालकों को क्रॉसवॉक, वॉकवे और पाथ्स पर चलने का पहला अधिकार है
2. क्रॉसवॉक पर चलते समय सेल फ़ोन का प्रयोग करना, पढ़ना या साथियों के साथ ध्यान भटकाने वाली बातचीत करना मना है
3. आपको जो भी क्रॉसिंग गार्ड मिले, उसके निर्देशों का पालन करें
4. जिस सड़क पर साइडवॉक न हो, उस पर चलते समय सामने से आने वाले ट्रैफिक की ओर मुँह रख कर चलें



अधिक जानकारी या सिममलित होने के तरीकों के लिए cupertino.org/saferoutes पर जाएं या saferoutes@cupertino.org पर ईमेल भेजें